

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून : दिनांक: 01 जनवरी, 2018

विषय:—वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-15 के पूंजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह, जखोली के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4003/सै.क./सै.वि.गृ./जखोली, दिनांक 07.08.2016 एवं शासनादेश संख्या-126/XVII-3/13-09(31)/2011, 15.03.2013, शासनादेश संख्या-338/XVII-5/2015-09(31)/2011, 27.03.2015 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-400/XXVII(I)/2015, दिनांक 01.04.2015 व शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(I)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-15 के पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्षक-4235 में प्राविधानित धनराशि रू0 40.00 लाख के सापेक्ष तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह, जखोली के चालू निर्माण कार्य हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू0 19.55 लाख (रू0 उन्नीस लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-400/XXVII(I)/2015, दिनांक 01.04.2015 व शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(I)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-15 के पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-0301-सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत रू0 19.55 लाख (रू0 उन्नीस लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार एलोटमेन्ट आई0डी0सं0-S1710150077, दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4732 में कर दिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)

अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:- 1102(1) /XVII-5/2017-09(31)/2011 : तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/रूद्रप्रयाग।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
6. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग।
7. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(सुधीर जोशी)

उप सचिव।